



[हंदी साहतियः पेन ड्राइव कोरस](#)

ध्यान देंः

[यूपीएससी \(मुखय\) परीकषा 2021 परशनपत्र : नबिंध](#)

close

-

//

- [होम](#)
- [बलॉग](#)
- [पुसतके](#)
- [ऑनलाइन कोरस](#)
- [कलकला परशनपत्र](#)
- [दृषट वीब स्टोर](#)
- [DLP](#)
- [नोटस बनाएँ](#)
- [लॉग इन](#)
- [रजसिटर](#)

भाषा: [EN](#)हिंदी

[खोजें](#)

[आरएसएस फीड](#)

[Cart](#)

[Classroom](#)

मेनू

- [हमारे बारे में](#)
  - [सामान्य परचिय](#)
  - ['दृषटि वजिन' संस्थान](#)
  - [दृषटि पबलिकेशन](#)
  - [दृषटि मीडिया](#)
  - [प्रबंध नदिशक](#)
  - [इंफ्रासट्रक्चर](#)
- [सविलि सेवा परीकषा](#)
  - [परचिय](#)
  - [परीकषा का प्रारूप](#)
  - [सविलि सेवा ही कर्यो?](#)
  - [सविलि सेवा परीकषा के वषिय में मधिक](#)
  - [प्रमुख सविलि सेवाओं का परचिय](#)
    - [आई.ए.एस.](#)
    - [आई.पी.एस.](#)
    - [आई.एफ.एस.](#)
  - [तैयारी की रणनीति](#)
    - [प्रारंभिक परीकषा](#)
    - [मुख्य परीकषा](#)
  - [इंटरव्यू](#)
  - [उपयोगी पुस्तकें](#)
    - [सामान्य अध्ययन](#)
    - [वैकल्पिक वषिय](#)
  - [FAQs](#)
  - [परीकषा वजिज्ञपति](#)
- [प्रारंभिक परीकषा](#)
  - [पाठ्यकरम & रणनीति](#)
    - [पाठ्यकरम](#)
    - [रणनीति](#)
  - [प्रलिमिस वशिलेषण](#)
  - [मॉडल पेपर](#)
  - [प्रैक्टिस टेस्ट](#)
    - [60 Steps To Prelims](#)
    - [डेली करेंट टेस्ट](#)
    - [एन. सी. ई. आर. टी. टेस्ट](#)
    - [आर्थिक सर्वेक्षण टेस्ट](#)
    - [PRS & PIB](#)
    - [सीसैट टेस्ट](#)
    - [सामान्य अध्ययन टेस्ट](#)
    - [योजना एवं कुरुकषेतर टेस्ट](#)
    - [डाउन टू अर्थ टेस्ट](#)
    - [वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टेस्ट](#)
  - [Prelims Special](#)

- [Path To Prelims](#)
  - [60 Steps To Prelims](#)
  - [प्रलमिस रफिरेशर प्रोगराम 2020](#)
- [वगित वरषों के प्रश्नपत्र](#)
  - [सामान्य अध्ययन](#)
  - [सीसैट](#)
- [ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज](#)
  - [टेस्ट सीरीज के लिये नामांकन](#)
  - [फ्री मॉक टेस्ट](#)
- [मुख्य परीक्षा](#)
  - [पाठ्यक्रम & रणनीति](#)
    - [पाठ्यक्रम](#)
    - [रणनीति](#)
  - [मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न](#)
  - [एन. सी. ई. आर. टी.](#)
    - [इतहास](#)
  - [नबिंध](#)
    - [नबिंध उपयोगी उद्धरण](#)
    - [टॉपरस के नबिंध](#)
    - [मॉडल नबिंध](#)
  - [वगित वरषों के प्रश्नपत्र](#)
    - [वरषवार](#)
    - [वषियानुसार](#)
  - [टॉपरस कॉपी](#)
    - [सामान्य अध्ययन](#)
    - [हंदी साहित्य](#)
    - [इतहास](#)
    - [भूगोल](#)
    - [दरशनशास्त्र](#)
    - [नबिंध](#)
    - [हंदी अनवार्य](#)
  - [Be Mains Ready](#)
    - [2021](#)
    - [2020](#)
    - [2019](#)
  - [मॉडल पेपर](#)
  - [ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज](#)
    - [ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज \(यू.पी.एस.सी.\)](#)
- [प्रैक्टिस टेस्ट](#)
  - [Path to prelims](#)
  - [मासकि करेंट अफेयर्स संग्रह](#)
  - [60 Steps To Prelims](#)
  - [डेली करेंट टेस्ट](#)
  - [सापताहकि रवीजन](#)
  - [एन. सी. ई. आर. टी. टेस्ट](#)
  - [आरथकि सरवेक्षण टेस्ट](#)
  - [PRS & PIB](#)
  - [सीसैट टेस्ट](#)
  - [सामान्य अध्ययन टेस्ट](#)
  - [योजना एवं कुरुक्षेत्र टेस्ट](#)
  - [डाउन टू अर्थ टेस्ट](#)
  - [वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टेस्ट](#)
  - [PCS Quiz](#)
- [पी.सी.एस.](#)
  - [बहिर](#)
  - [छत्तीसगढ](#)
  - [राजस्थान](#)
  - [उत्तर प्रदेश](#)
  - [हरयाणा](#)

- झारखंड
- उत्तराखंड
- मध्य प्रदेश
- टेस्ट सीरीज
  - UPSC
    - प्रलिमिंस टेस्ट सीरीज
    - मेन्स टेस्ट सीरीज
  - BPSC
    - प्रलिमिंस टेस्ट सीरीज
    - मेन्स टेस्ट सीरीज -
      - सामान्य अध्ययन
      - हृदि साहित्य
  - UPPCS
    - मेन्स टेस्ट सीरीज
  - RAS/RTS
    - मेन्स टेस्ट सीरीज
  - MPPSC
    - प्रलिमिंस टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
  - डेली न्यूज, एडिटोरियल और प्रलिमिंस फैक्ट
  - डेली करेंट टेस्ट
  - संसद टीवी संवाद
  - आर्थिक सर्वेक्षण
  - मासिक करेंट अपडेट्स संग्रह
  - मासिक एडिटोरियल संग्रह
  - मासिक डेली क्विज़ संग्रह
- दृष्टि स्पेशलस
  - चर्चा मुद्दे
  - माइंड मैप
    - पेपर 1
    - पेपर 2
    - पेपर 3
    - पेपर 4
  - टू द पॉइंट
    - पेपर 1
    - पेपर 2
    - पेपर 3
    - पेपर 4
  - महत्त्वपूर्ण संस्थान/संगठन
  - मैप के माध्यम से अध्ययन
  - महत्त्वपूर्ण रपिर्ट्स की जस्टि
  - पीआरएस कैप्सूलस
  - डसिटेस लर्निंग प्रोग्राम
- डाउनलोडस
  - टॉपर्स कॉपी
    - सामान्य अध्ययन
    - हृदि साहित्य
    - इतिहास
    - भूगोल
    - दर्शनशास्त्र
    - नबिंध
    - हृदि अनविरय
  - एनसीईआरटी बुक्स
  - एनआईओएस सटडी मैटरियल
  - इग्नू सटडी मैटरियल
  - योजना और कुरुक्षेत्र
  - इनफोग्राफिकस
  - वर्षों के प्रश्नपत्र
    - सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा)

- [सीसैट \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
- [मुख्य परीक्षा \(वर्षवार\)](#)
- [मुख्य परीक्षा \(वषियानुसार\)](#)
- [वीडियो सेक्शन](#)
  - [मेनस \(जी.एस.\) डसिकशन](#)
  - [मेनस \(ओपशनल\) डसिकशन](#)
  - [करेंट नयूज बुलेटनि](#)
  - [मॉक इंटरव्यू](#)
  - [टॉपरस व्यू](#)
  - [टू द पॉइंट](#)
  - [सरकारी योजनाएँ](#)
  - [ऑडियो आर्टिकलस](#)
  - [रणनीति](#)
  - [उत्तर लेखन की रणनीति](#)
  - [कॉन्सेप्ट टॉक : डॉ. विकास दवियकीरति](#)
- [और देखें](#)  
[दृष्टविब सटोर](#)

close

- [संपादक की कलम से](#)
- [बलॉग](#)
- [पी.सी.एस.](#)
- [इंटरव्यू](#)
- [डसिटेंस लरनगि पुरोगराम](#)
- [बगिनरस के लयि सुझाव](#)

## एचीवरस कॉरनर

- [टॉपरस कॉपी](#)
- [टॉपरस इंटरव्यू](#)

## हमारे बारे में

- [सामानय परचिय](#)
- ['दृष्टदि वजिन' संस्थान](#)
- [दृष्टि पब्लिकेशन](#)
- [दृष्टि मीडिया](#)
- [प्रबंध नदिशक](#)
- [इंफ़रासट्रक्चर](#)

- [कक्षा कार्यक्रम](#)

## प्रारंभिक परीक्षा

- [पाठ्यक्रम & रणनीति](#)
  - [पाठ्यक्रम](#)
  - [रणनीति](#)
- [प्रलिमिंस विश्लेषण](#)
- [60 Steps To Prelims](#)
- [प्रलिमिंस रफिरेशर प्रोग्राम 2020](#)
- [मॉडल पेपर](#)
- [प्रैक्टिस टेस्ट](#)
  - [60 Steps To Prelims](#)
  - [डेली करेंट टेस्ट](#)
  - [साप्ताहिक रवीजन](#)
  - [एन. सी. ई. आर. टी. टेस्ट](#)
  - [आर्थिक सर्वेक्षण टेस्ट](#)
  - [PRS & PIB](#)
  - [सीसैट टेस्ट](#)
  - [सामान्य अध्ययन टेस्ट](#)
  - [योजना एवं कुरुक्षेत्र टेस्ट](#)
  - [डाउन टू अर्थ टेस्ट](#)
  - [वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टेस्ट](#)
- [वर्षों के प्रश्नपत्र](#)
  - [सामान्य अध्ययन \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
  - [सीसैट \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
  - [मुख्य परीक्षा \(वर्षवार\)](#)
  - [मुख्य परीक्षा \(वर्षानुसार\)](#)
- [ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज](#)
  - [टेस्ट सीरीज के लिये नामांकन](#)
  - [फ्री मॉक टेस्ट](#)

## मुख्य परीक्षा

- [पाठ्यक्रम & रणनीति](#)
  - [पाठ्यक्रम](#)
  - [रणनीति](#)
- [मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न](#)
- [एन. सी. ई. आर. टी.](#)
  - [इतिहास](#)
- [नबिंध](#)
  - [नबिंध उपयोगी उद्धरण](#)
  - [टॉपर्स के नबिंध](#)
  - [मॉडल नबिंध](#)
- [वर्षों के प्रश्नपत्र](#)
  - [वर्षवार](#)
  - [वर्षानुसार](#)
- [टॉपर्स कॉपी](#)
  - [सामान्य अध्ययन](#)
  - [हिंदी साहित्य](#)
  - [इतिहास](#)

- भूगोल
- दर्शनशास्त्र
- नबिध
- हदि अनविरय
- [Be Mains Ready](#)
- ['AWAKE' : मुख्य परीक्षा-2020](#)
- [मॉडल पेपर](#)
- [ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज](#)
  - [ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज \(यू.पी.एस.सी.\)](#)

## पी.सी.एस.

- [बहिर](#)
- [छत्तीसगढ](#)
- [राजस्थान](#)
- [उत्तर प्रदेश](#)
- [हरियाणा](#)
- [झारखंड](#)
- [उत्तराखंड](#)
- [मध्य प्रदेश](#)

## टेस्ट सीरीज

- [UPSC परलिमिस टेस्ट सीरीज](#)
- [UPSC मेनस टेस्ट सीरीज](#)
- [UPPCS परलिमिस टेस्ट सीरीज](#)
- [UPPCS मेनस टेस्ट सीरीज](#)
- [BPSC मेनस टेस्ट सीरीज - हदि साहित्य](#)

## करेंट अफेयर्स

- [डेली नयुज, एडिटोरियल और परलिमिस फेक्ट](#)
- [डेली करेंट टेस्ट](#)
- [मासकि करेंट अपडेटस संग्रह](#)
- [संसद टीवी संवाद](#)
- [आर्थिक सर्वेक्षण](#)
- [मासकि करेंट अपडेटस संग्रह](#)
- [मासकि एडिटोरियल संग्रह](#)
- [मासकि डेली क्विज संग्रह](#)

## दृष्टिसिपेशल्स

- [चरचति मुददे](#)

- [माइंड मैप](#)
  - [पेपर 1](#)
  - [पेपर 2](#)
  - [पेपर 3](#)
  - [पेपर 4](#)
- [टू द पॉइंट](#)
  - [पेपर 1](#)
  - [पेपर 2](#)
  - [पेपर 3](#)
  - [पेपर 4](#)
- [महत्त्वपूर्ण संसथान/संगठन](#)
- [मैप के माध्यम से अध्ययन](#)
- [संसद टीवी संवाद](#)
- [महत्त्वपूर्ण रपिर्ट्स की जसिट](#)
- [पीआरएस कैपसूलस](#)
- [डसिटेंस लरनगि प्रोग्राम](#)

## डाउनलोड्स

- [टॉपरस कॉपी](#)
  - [सामान्य अध्ययन](#)
  - [हदि साहतिय](#)
  - [इतहास](#)
  - [भूगोल](#)
  - [दरशनशासत्र](#)
  - [नबिध](#)
  - [हदि अनवारय](#)
- [एनसीईआरटी बुकस](#)
- [एनआईओएस सटडी मैटरियल](#)
- [इगनू सटडी मैटरियल](#)
- [योजना और कुरुक्षेत्र](#)
- [इनफोग्राफकिस](#)
- [वगित वरषों के प्रशनपत्र](#)
  - [सामान्य अध्ययन \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
  - [सीसैट \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
  - [मुख्य परीक्षा \(वर्षवार\)](#)
  - [मुख्य परीक्षा \(वषियानुसार\)](#)

## वीडियो सेक्शन

- [मेनस \(जी.एस.\) डसिकशन](#)
- [मेनस \(ओपशनल\) डसिकशन](#)
- [करेंट न्यूज़ बुलेटनि](#)
- [मॉक इंटरव्यू](#)
- [टॉपरस व्यू](#)
- [टू द पॉइंट](#)
- [सरकारी योजनाएँ](#)
- [ऑडियो आर्टकिलस](#)
- [रणनीति](#)
- [उत्तर लेखन की रणनीति](#)
- [कॉन्सेप्ट टॉक : डॉ. विकास दवियकीरति](#)



- [दृष्टिआईएस के बारे में जानें](#)

## सविलि सेवा परीक्षा

- [परचिय](#)
- [परीक्षा का परारूप](#)
- [सविलि सेवा ही क्यों?](#)
- [सविलि सेवा परीक्षा के वषिय में मथिक](#)
- [परमुख सविलि सेवाओं का परचिय](#)
  - [आई.ए.एस.](#)
  - [आई.पी.एस.](#)
  - [आई.एफ.एस.](#)
- [तैयारी की रणनीति](#)
  - [परारंभिक परीक्षा](#)
  - [मुख्य परीक्षा](#)
- [इंटरव्यू](#)
- [उपयोगी पुस्तकें](#)
  - [सामान्य अध्ययन](#)
  - [वैकल्पिक वषिय](#)
- [FAQs](#)
- [परीक्षा वजिजपति](#)

## [दृष्टि वेब सटोर](#)

•

### प्रश्न :

फूड फोर्टफिकेशन (Food Fortification) क्या है एवं भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? फूड फोर्टफिकेशन से होने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए इस दशा में भारत में अब तक किये गए प्रयासों का वर्णन करें।

10 May, 2017 सामान्य अध्ययन पेपर 3 अर्थव्यवस्था

### उत्तर :

फूड फोर्टफिकेशन चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडिनि, जकि, वटिामनि A एवं D जैसे परमुख खनजि पदार्थ एवं वटिामनि जोड़ने अथवा वृद्धि करने की प्रक्रिया है जसिसे कइनि खाद्यों के पोषण स्तर में वृद्धि हो। इस प्रसंस्करण प्रक्रिया से पहले मूल खाद्य पदार्थों में ये पोषण तत्व मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

### भारत में फूड फोर्टफिकेशन की आवश्यकता:

- FSSAI (Food Safety and Stanadard Authority of India) के अनुसार भारत में 70% लोग वटिामनि एवं खनजि जैसे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों का पर्याप्त उपभोग नहीं करते हैं। लगभग 70% स्कूल-पूर्व बच्चों में लौह (Fe) की कमी के कारण एनीमिया (रक्ताल्पता) की स्थिति पाई जाती है तो 57% स्कूल-पूर्व बच्चों में वटिामनि A की कमी है।

- भारत में जनमजात तंत्रिका दोषों से पीड़ित बच्चों की संख्या काफी अधिक है। एक अनुमान के अनुसार पोषक तत्त्वों की पर्याप्त आपूर्ति से इस प्रकार के दोषों में 50-70% तक की कमी लाई जा सकती है।
- सूक्ष्म मात्रात्मक पोषक तत्त्वों की कमी के कारण भारत में बड़ी आबादी में छिपी हुई भूख (hidden hunger) के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पाया गया है। जो लोग गरीब और वंचित हैं उनकी सुरक्षा एवं पौष्टिक भोजन तक पर्याप्त पहुँच नहीं है एवं अन्य लोगों के भोजन में भी पर्याप्त विविधता न होने अथवा खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान पोषक तत्त्वों के नष्ट हो जाने के उनमें पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती।

इन मुद्दों से निपटने के लिये FSSAI ने मानकों का एक सेट जारी किया एवं फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जागरूकता एवं आम सहमत निरिमाण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब अनेक उद्यमों ने अपने प्रमुख खाद्य ब्रांडों में पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ाने पर सहमति जताई है।

### फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ-

- इस प्रक्रिया में पोषक तत्त्व मुख्य खाद्य पदार्थों (जैसे-आटा, चावल, नमक, दूध आदि) में जोड़े जाते हैं अतः इनकी आपूर्ति जनसंख्या के बड़े हिस्से तक संभव हो पाती है।
- यह लोगों में स्वास्थ्य सुधार का सुरक्षा एवं जोखिम-मुक्त तरीका है। मिलाए गए पोषक तत्त्वों की मात्रा अत्यल्प एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप होती है।
- यह लोगों के खान-पान की आदतों एवं व्यवहार में किसी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा नहीं करता तथा सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका है।
- यह अपेक्षाकृत कम समय में तेजी से स्वास्थ्य सुधार में सक्षम है एवं लागत प्रभावी भी है। कोपेनहेगन सहमति (Copenhagen Consensus) का आकलन है कि फूड फोर्टिफिकेशन पर यदि 1 रुपए खर्च किया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में 9 रुपए का लाभ पहुँचाता है। और, फोर्टिफिकेशन के पश्चात खाद्य पदार्थों की कीमतों में केवल 1-2% की ही वृद्धि होती है।

### फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में भारत में किये गए प्रयास-

- पंजाब हरियाणा, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र की दुग्ध सहकारी समितियाँ अपने दुग्ध उत्पादों का 'फोर्टिफिकेशन' कर रही हैं।
- बच्चों को लक्षित करने के लिये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपनी मडि-डे-मिल योजना में 'फोर्टिफाइड तेल' का उपयोग प्रारंभ कर दिया है।
- पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से फोर्टिफाइड गेहूँ के आटे का वितरण किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है।
- FSSAI स्थानीय छोटे आपूर्तिकर्ताओं, जैसे-स्थानीय आटा पिसाई मलों के साथ काम कर रहा है ताकि वे अपने उत्पादों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का मशिरण मिलाएँ।
- FSSAI द्वारा जारी मानकों के सेट के आधार पर आशीर्वाद, अन्नपूर्णा, पतंजली, पलिसबरी जैसे उद्यमों ने अपने कई खाद्य उत्पादों में पोषक मशिरण मिलाने पर सहमति दी है।

इस प्रकार के प्रयासों से न केवल कूपोषण को कम किया जा सकता है बल्कि सतत विकास लक्ष्यों (SDGS) की उपलब्धिकी दिशा में मजबूत कदम बढ़ाकर एवं जनता का स्वास्थ्य सुनिश्चित कर 'स्वस्थ एवं सशक्त भारत' का निरिमाण किया जा सकता है।

## मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

- [होम](#)
- [मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न](#)

filterHide Menu

```
$('#sendtoprogress').click(function(e){ var article=$('#article').val(); var title = $('#articletitle').val(); var url = "https://www.drishitias.com/hindi/mains-practice-question/question-1026/pnt"; $.ajax({ type: "POST", url: "https://www.drishitias.com/hindi/articles/progress", data: 'article='+article+'&type=2&articletitle='+title+'&url='+encodeURIComponent(url), success: function(data){ if(data=='success'){ if($('.progresslist').length) { $('.progresslist').prepend(''); } } else { $('.message').hide(); $( '

```

- '+title+'

```
'.insertAfter( ".content .prog" ); } $('#articlemsg').html('आर्टिकल को आपके प्रोग्रेस सेक्शन में जोड़ दिया गया है।'); $('#fixbtn.progress').toggleClass('open'); }else if(data=='already'){ $('#articlemsg').html('यह आर्टिकल आपके प्रोग्रेस सेक्शन में पहले से ही मौजूद है।'); }else if(data=='login'){ $('#articlemsg').html('आर्टिकल को प्रोग्रेस सेक्शन में जोड़ने के लिए लॉगिन करें।'); }else{ $('#articlemsg').html('ओह! कुछ गलत हो गया है। कृपया पुनः प्रयास करें।'); } }, error: function(error,errortype,errorstatus){ alert(errortype); } }); $('#sendtobookmark').click(function(e){ var article=$('#article').val(); var title = $('#articletitle').val(); var url = "https://www.drishitias.com/hindi/mains-practice-question/question-1026/pnt"; $.ajax({ type: "POST", url: "https://www.drishitias.com/hindi//articles/progress", data: 'article='+article+'&type=1&articletitle='+title+'&url='+encodeURIComponent(url), success: function(data){ if(data=='success'){ if($('.bookmarklist').length) { $('.bookmarklist').prepend(''); } } else { $('.message').hide(); $( '

```

- '+title+'

```
'.insertAfter( ".content .bookm" ); } $('#articlemsg').html('यह आर्टिकल आपके बुकमार्क्स सेक्शन में जोड़ दिया गया है।'); $('#fixbtn.bookmark').toggleClass('open'); }else if(data=='already'){ $('#articlemsg').html('यह आर्टिकल आपके बुकमार्क्स सेक्शन में पहले से ही मौजूद है।'); }else if(data=='login'){ $('#sendtobookmark').addClass('popup'); //$('#articlemsg').html('Please login to send this article into progress. '); }else{ $('#articlemsg').html('ओह! कुछ गलत हो गया है। कृपया पुनः प्रयास करें।'); } }, error: function(error,errortype,errorstatus){ alert(errortype); } });
```

न्यूज़लेटर सदस्यता

सब्सक्राइब करें

एसएमएस अलर्ट

सब्सक्राइब करें

## हमारे बारे में

- [For 2nd/3rd/4th EMI - Pay Now](#)
- ['दृष्टिद वज़िन' फाउंडेशन का परिचय](#)
- [दृष्टिद वेब साइट](#)
- [दृष्टिद मीडिया](#)
- [प्रबंध निदेशक](#)
- [इंफ्रास्ट्रक्चर](#)
- [छात्रों के लिए कार्यक्रम](#)

## हमसे जुड़ें

- [संपर्क करें](#)
- [आपकी प्रतिक्रिया](#)
- [करियर](#)

## हमसे संपर्क करें

### दृष्टिद वज़िन फाउंडेशन

641, पहली मंजलि, डॉ. मुखर्जी नगर,  
सग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सामने,  
नई दिल्ली - 110009

### दृष्टिद वज़िन फाउंडेशन

सविलि लाइन्स, परयागराज (इलाहाबाद),  
उत्तर प्रदेश - 211001,  
फोन नंबर - 8448485518, 8750187501

- -
- -
- -
- -
- -
- -

--

-

कॉपीराइट © 2018-2022 'दृष्टिदि वज्रिन' फाउंडेशन, इंडिया | सर्वाधिकार सुरक्षित | [गोपनीयता नीति](#)

```
function getCookie(name) { var match = document.cookie.match(RegExp("(?:^|\\s*)" + name + "=[^;]*")); return match ? match[1] : null; } if(getCookie('isPopupDisplayed')!=1) { $(document).ready(function(){ document.cookie = "isPopupDisplayed=1" // $('#myModal').css('display','block'); $('#img01').attr('src',$('#myImg').attr('src')); $('#img01').attr('style','cursor:pointer'); }); $('#img01').on('click',function(e){ window.location="https://www.drishtiias.com/hindi/online-course"; }); $('#popclose').on('click',function(e){ $('#myModal').css('display','none'); }); }
```

Share Page

-

--

-

--

-

--

-


--

-

--

खोजें Close

```
$('#searchfrm').submit(function(e){ var search=$('#search').val(); location='https://www.drishtiias.com/hindi/search/'+search; e.preventDefault(); }); $(document).ready(function(){ $('#comin-soon').colorbox({innerWidth: 1100, innerHeight: 530}); if(screen.width & N B S P ;
```



&NBSP;&NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; - &NBSP;

&NBSP; - &NBSP;

```
// For desktop - DRAGGABLE $('float-plus').draggable(); $('float-plus').css("position", "fixed"); $('float-plus').click(function(){ show_social_float_icons(); }) var box = document.getElementById('float-plus'); $('float-plus').mousedown(function(){ box.style.transition = "all 0s ease 0s"; }); $('float-plus').mouseup(function(){ box.style.transition = "all 1s ease 0s"; var screen_width = screen.width; var screen_width = parseInt(screen_width, 10) var current_location = box.style.left; var current_location = parseInt(current_location, 10) var screen_middle = (screen_width/2); var xx = (screen_width*0.04); var x = (screen_width*0.009); if(current_location > screen_middle){ box.style.left = (screen_width-xx) + 'px'; } else { box.style.left = x + 'px'; } }); // For MOBILE TOUCH - DRAGGABLE var box = document.getElementById('float-plus'); box.addEventListener('touchstart', function(e) { // Nothing for now! }); box.addEventListener('touchmove', function(e) { box.style.transform = "translate(-50%, -50%)"; var touchLocation = e.targetTouches[0]; box.style.left = (touchLocation.pageX-window.scrollX) + 'px'; box.style.top = (touchLocation.pageY-window.scrollY) + 'px'; e.preventDefault(); }); box.addEventListener('touchend', function(e) { // Nothing for now! }); function remove_social_float_icons() { $(".float-fb").animate({ top: "-=8%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-fb" ).hide("slow"); },500); $(".float-tw").animate({ top: "-=16%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-tw" ).hide("slow"); },500); $(".float-rs").animate({ top: "-=24%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-rs" ).hide("slow"); },500); $(".float-ig").animate({ top: "-=32%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-ig" ).hide("slow"); },500); $(".float-pn").animate({ top: "-=40%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-pn" ).hide("slow"); },500); $(".float-wp").animate({ top: "-=48%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-wp" ).hide("slow"); },500); var width = (window.innerWidth > 0) ? window.innerWidth : screen.width; if(width 0) ? window.innerWidth : screen.width; if(width
```